

October 28, 2019

BSE Limited
P. J. Towers
Dalal Street, Fort
Mumbai - 400 001

National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza Bandra Kurla Complex Bandra (E) Mumbai - 400 051

Dear Sirs,

Sub.: Submission of copies of published Unaudited Consolidated Financial Results

In continuation of our letter dated October 25, 2019, we enclose copies of the Unaudited Consolidated Financial Results for the quarter ended September 30, 2019 published on October 26, 2019 in MINT (English) and HINDUSTAN (Hindi).

This is for information and records.

Thanking you,

Yours faithfully, For Jubilant Life Sciences Limited

Rajiv Shah Company Secretary

Encl.: as above

A Jubilant Bhartia Company



Jubilant Life Sciences Limited 1-A, Sector 16-A, Noida-201 301, UP, India Tel:+91 120 4361000 Fax:+91 120 4234895-96 www.jubl.com Regd Office: Bhartiagram, Gajraula Distt. Amroha - 244 223,

CIN: L24116UP1978PLC004624

SATURDAY, OCTOBER 26, 2019

LIVEMINT.COM

Ajay Piramal-led Piramal

Enterprises expects the rights

issue to be completed by Feb.

Piramal says he

will underwrite

full ₹3,650 cr

rights offering

jay Piramal will under-

write the entire rights

issue of ₹3,650 crore

announced on Friday, the bil-

lionaire businessman said in

On Friday, Piramal Enter-

prises said it will raise a total of

₹5,400 crore through a mix of

rights issue of ₹3.650 crore

and preferential allotment of

convertible instruments to

Canadian pension fund man-

ager Caisse de dépôt et place-

ment du Québec (CDPQ),

In 2017, CDPQ had partici-

pated as the anchor investor

during Piramal Enterprises'

qualified institutional place-

ment, investing \$175 million

out of the total issue size of

\$750 million. Additionally,

amounting to ₹1.750 crore.

an interaction with *Mint*.

Deborshi Chaki &

MUMBAI

Swaraj Singh Dhanjal



Divine intervention for SBI in Q2 but the devil's in the detail

Net profit at ₹3,012 cr is up nearly threefold, performance is still not enough to dispel gloom

aparna.i@livemint.com

he September quarter earnings of the country's largest lender. State Bank of India, brought much-needed cheer to an otherwise gloomy banking sector.

Net profit at ₹3,012 crore was up by nearly three times from the year-ago period. The 7.3% gain in the stock on Thursday was justified with profit comfortably beating estimates

When the bank's chairman Rajnish Kumar sought divine intervention in the June quarter-"every morning I am looking at the sky and praying to God" is how he put it—SBI's balance sheet had been hit by a surge in fresh slippages. Three months later, these slippages have halved and the pile of dud loans is down to 7.19% of its loan book.

Clearly, this sharp reduction in stressed loans has given confidence to Kumar to commit to the worst-case scenario of a 2% slippage ratio for FY20. Kumar was hopeful that the ratio will be lower.

'We expect gross slippages in a not-so-good scenario to not exceed 2%. We believe

CURBED ENTHUSIASM SBI reported a sharp fall in slippages, but write-offs and provisioning remain elevated. ■ Loan loss provisions ■ Slippages ■ Write-offs (in ₹ crore) **DEFERRED** tax assets have not 10,185 been accounted for in O2 as SBI is 10.888 vet to move to the new tax regime 13.538 These may weigh on future profits. **THE** bank's loan write-offs, at 18,024 ₹12,053 crore in Q2, remain high. This has helped it reach a provision coverage ratio of 81%. **17.264** 11.648 016,995 **THE** impending stress from the Q1 FY20 **15,482** telecom sector, after SC ordered telcos to pay up licence fees, will 11.041 impact SBI's asset quality.

NAVEEN KUMAR SAINI/MINT

the lender had to use all the

gains it got from the stake sale

of SBI life Insurance towards

Part of it went towards the

beleaguered Dewan Housing

provisions.

that the current run rate of ₹8,000 crore slippages per quarter in a ₹23 lakh crore loan book is normal," said Kumar.

The other boost was an over-17% growth in core income, propelled by an

18% growth in retail loans. Even if Indian companies are not borrowing, consumers, it seems, are still willing to fund their purchases through

Indeed, SBI's strong retail the future quarters. Further,

loan growth belies the broad narrative of a consumption demand slowdown in the economy

But no banker leaves everything to God and, as they say, the MARK TO devil is in the MARKET

account for deferred tax assets

which will weigh on profits of

details. Here are three: First, SBI is yet to move to a lower tax regime after the corporate tax cut. What this means is that the bank is yet to

Finance Corp. Ltd. to which the bank has an exposure of ₹7,000 crore. More than 60% went toward a power borrower due to a failed resolu-

Second, SBI's loan writeoffs are still high. For the September quarter, the bank wrote off ₹12.053 crore worth of bad loans, a bit lower than

16,000 in the previous quarter. Write-offs helped SBI to reach a provision coverage ratio of 81%. Had it not written off loans, its provision coverage ratio would be an unimpressive 62%. Write-offs still drive the reduction in SBI's bad loan pile.

Third, SBI still has to face a large line of insolvency cases in courts. The high level of provisioning done by the lender should give some comfort to investors. The lender said three accounts were in the final stages of resolution, with an expected recovery of 62%. The impending stress from the telecom sector, after the Supreme Court ordered telcos to pay up licence fees will also have an impact on SBI's asset quality. Kumar's comment on the likely impact was noncommittal.

In short, SBI's September performance brings cheer to investors, but is not enough to dispel the gloom on the economy.

With some prayers answered, Kumar has to get down to the business of getting the cheques overdue from troubled marquee borrowers. Most of all, SBI will have to find a resolution for DHFL to save its ₹7.000 crore.

BJP strikes deal with JJP, all set to return to power in Haryana

Gyan Varma & Anuja

NEW DELHI

he Bharatiya Janata Party (BJP) is set to return to power in Hary-

BJP president Amit Shah late on Friday evening said his party will enter into a coalition with Dushvant Chautala-led Jannayak Janta Party (JJP). The newly formed alliance is likely to stake claim to form the government on Saturday.

According to the agreement between the two parties, the | happy," Chautala told report-

BJP's Manohar Lal Khattar will continue to be chief minister while the deputy chief minister will be from JJP.

that his flagship company, "Accepting the Piramal Enterprises Ltd, mandate by the people of Haryana, leaders of both parties have decided that

BJP-JJP will form the government together in Haryana. CM will be from BJP and deputy CM will be from JJP," Shah said.

The alliance is in line with the "spirit" of people's mandate, Shah told a press conference held jointly with Chautala. The two were also joined by Khattar, who said both parties had worked together in the past. Chautala said his party believed the alliance was necessary for stability in Haryana.

24 PAGES

The move is significant as it clears the decks for the BJP's return to power in the state. With 10 MLAs, JJP's support will bolster the tally of the saffron party which fell six short of a majority.

Earlier in the day, Chautala said JJP would join hands with any political party that agreed to a common minimum programme. "Whether it is the Congress or the BJP, if our support is needed for improvement of Harvana we will be

ers in the national **BIP's Manohar Lal** capital.

Meanwhile, in Maharashtra, a day after the National Democratic Alliance (NDA) got a clear majority, the BJP was vet to reach

common ground on a power-sharing formula with long-time ally Shiv Sena.

The BJP wants Devendra Fadnavis to continue as chief minister for a full second term. However, Shiv Sena wants to shift the alliance dynamics in its favour with a 50:50 formula this time around, where the two parties will share the chief ministership for two-and-ahalf years each.

Shiv Sena made its inten-

TURN TO PAGE 21

DON'T MISS

Tata Sons to infuse ₹6.500 cr equity in Tata Motors See Page 21 increased scrutiny See Page 20 Lutyens' Delhi

Highly pledged stocks to face

Ahmedabad firm to redesign

IndiGo faces delay in delivery See Page 20 of long-haul planes See Page 20

TURN TO PAGE 21

NOTE TO READERS The content on page 7 was produced by Mint Brand Cell in collaboration with DPA as part of our customer connect initiative. The news and editorial teams of Mint had no role in its creation.

Khattar will

continue to be

chief minister

while the deputy

chief minister

will be from JJP



Place

Date

Noida

25 October, 2019

Jubilant Life Sciences Limited

Regd. Off.: Bhartiagram, Gajraula, District Amroha - 244 223 (U.P.) | CIN: L24116UP1978PLC004624 Website: www.jubl.com | Email: investors@jubl.com | Tel: +91-5924-267200

Extract of Consolidated Unaudited Results for the Quarter and Half year ended 30 September 2019

						(₹ in Lakhs
Particulars	Quarter Ended			Half Year Ended		Year Ended
	30 September	30 June	30 September	30 September	30 September	31 March
	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)
	2019	2019	2018	2019	2018	2019
Total revenue from operations	226593	218186	226949	444779	434814	911082
Net Profit before tax, exceptional and extraordinary items	29223	26903	31026	56126	61851	118404
Net Profit before tax (after exceptional and extraordinary items)	29223	26903	30181	56126	58818	90381
Net Profit after tax, exceptional and extraordinary items	24939	18498	20977	43437	41014	57701
Total comprehensive income after tax (comprising profit for the period after tax and other comprehensive income after tax)	27320	23203	35071	50523	56473	56323
Earnings per share of ₹ 1 each (Not annualized)						
Basic (₹)	15.66	11.61	13.50	27.27	26.50	36.86
Diluted (₹)	15.66	11.61	13.50	27.27	26.50	36.86
Equity share capital	1593	1593	1558	1593	1558	1593
Reserves (excluding revaluation reserve)				521437	458349	479299
Net Worth				523030	454477	480902
Paid-up debt capital				428900	301970	420300
Capital Redemption Reserve				3984	3984	3984
Debenture Redemption Reserve				13008	7492	13008
Debt Equity Ratio				0.65	0.76	0.73
Debt Service Coverage Ratio				6.41	6.65	8.07
Interest Service Coverage Ratio				6.41	6.65	8.07

The Company has opted to publish consolidated results for the year ending 31 March 2020. The standalone unaudited results are available under Investors section of our website at www.jubl.com and under Financial Results at Corporates section of www.nseindia.com and www.bseindia.com. Key standalone financial information of the Company is as under:

						()	
Particulars		Quarter Ended			Half Year Ended		
	30 September	30 June	30 September	30 September	30 September	31 March	
	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)	
	2019	2019	2018	2019	2018	2019	
Total revenue from operations	75754	78982	88727	154736	171391	343861	
Profit before tax	10620	4732	9121	15352	12466	18343	
Net profit after tax	14307	3226	7961	17533	10349	14763	

- 2. Items referred in sub clauses (a), (b), (d) and (e) of the regulation 52(4) of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015, have been disclosed in detailed format of the consolidated unaudited results for the quarter and half year ended 30 September 2019 filed with BSE Limited and The National Stock Exchange of India Limited and can be accessed under Financial Results at Corporates section of www.nseindia.com
- The above consolidated unaudited results were, subjected to limited review by the Statutory Auditors of the Company, reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on 25 October 2019.
- The above is an extract of the detailed format of the consolidated unaudited results for the quarter and half year ended 30 September 2019 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 and 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format for the consolidated unaudited results for the quarter and half year ended 30 September 2019 is available under Investors section of our website at www.jubl.com and under Financial Results at Corporates section of www.nseindia.com and www.bseindia.com.

For Jubilant Life Sciences Limited

Hari S. Bhartia Co-Chairman & Managing Director







शहर में छाईं दिवाली की ख़ुशियां, स्कूलों से लेकर बाजारों तक बिखरे त्योहार के रंग, कहीं रंगोली तो कहीं लगा दिवाली मेला

स्कूलों में सजी रंगोली, धूमधाम से मनी दिवाली

मुरादाबाद | **वरिष्ठ संवाददाता**

दिवाली के रंग में हर लम्हां सराबोर है। हर तरफ प्रकाश का बोलबाला है। बाजारों की रौनक देखते ही बन रही है। इन सबमें शहर की शिक्षण संस्थाएं भी बराबर शरीक हो रही हैं। स्कुलों में रंगोली सजीं। दिवाली मेले लगे। पोस्टर में दिवाली के रंग भरे गए। बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तृत किए।

एसवीएम इंटर कॉलेजः एसवीएम इंटर कॉलेज किसरौल में दिवाली महोत्सव मनाया गया। रंगोली एवं दीपोत्सव कार्यक्रम किया गया। बच्चों ने दिया। प्रधानाचार्य अवधेश पाठक ने दिवाली का महत्व बताया। रेखा रानी, रेनू भटनागर, ऋषि गौड़, अरविंद कुमार



किड्जी स्कूल में दिवाली मनाते बच्चे।

शर्मा, सुशील विश्नोई, राजीव मिश्रा, अरविंद कुमार शर्मा आदि उपस्थित रहे।

वीकेएस पब्लिक स्कूलः वीकेएस पब्लिक स्कूल में दिवाली पर रंगोली बनाने के साथ ही विभिन्न प्रतियोगिताएं कराई गईं। इनमें कंदील सज्जा,

बंदनवार, दीया और मोमबत्ती समेत कई प्रतियोगिताएं शामिल रहीं। निर्णायक मंडल में कोयल सिंघल, जूही सिंघल शामिल रहीं। विजेता बच्चों को बाल दिवस पर पुरस्कार वितरित किए जाने की बात कही गई। प्रधानाचार्या, पूनम



सेनफोर्ट स्कूल में लगी सज्जा प्रदर्शनी।

मेहरोत्रा ने दिवाली की शुभकामनाएं दीं। सेनफोर्ट स्कूल में मनी दिवालीः सेनफोर्ट स्कूल में दिवाली मनाई गई। बच्चों ने रंगोली सजाने के साथ ही साज-सज्जा के सामान की प्रदर्शनी लगाई। प्रबंधक, अमित कुमार अग्रवाल, दीपक गप्ता मौजद रहे। प्रधानाचार्य, जेडी रॉय ने बच्चों को दिवाली का महत्व बताया। स्कुल को-ऑर्डिनेटर पूजा अग्रवाल ने बच्चों को दिवाली की बधाई दी।

गोल्डन गेट ग्लोबल स्कुलः गोल्डन गेट ग्लोबल स्कुल में दिवाली की धुम

का महत्व व आवश्यकता बताई गई। बच्चों ने साज-सज्जा करके स्वच्छता का संदेश दिया। गोल्डन गेट के बच्चों ने परिवर्तन स्कूल के बच्चों को उपहार देकर संयुक्त दिवाली की खुशियां मनाईं। डायरेक्टर, अंकुर खन्ना, राजीव गोयल, प्रिंसिपल, सचिन घावरी, प्रधानाचार्या स्नेहा शर्मा आदि मौजद रहीं।

किड्ज हर्ष प्ले स्कूलः किड्ज हर्ष प्ले स्कुल कांशीरामनगर में दिवाली मनाई गई। बच्चों पारंपरिक परिधान पहनकर दिवाली की रौनक में शामिल हए। प्रबंधक, सोना गुप्ता ने दिवाली का महत्व बताया। बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं। संचालन, साक्षी वर्मा ने किया।



सुमित और संध्या बने मिस्टर व मिस फ्रेशर

मुरादाबाद। आईएफटीएम विवि के होटल मैनेजमेंट एवं कैटरिंग टेक्नोलॉजी विभाग में नवागत विद्यार्थियों का स्वागत किया गया। बीएचएमसीटी एवं डीएचएम प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया मिस्टर फ्रेशर, सुमित शर्मा व मिस फ्रेशर, संध्या कुमारी चुनी गई। संचालन हरविंदर, सुमन एवं कल्पना ने किया। प्रो मंजुला जैन, डॉ केके पांडेय, प्रो निशा अग्रवाल, डॉ आरके यादव, सचिन वर्मा, रूही, मौसमी बॅनर्जी आदि

जीजी हिन्दू इंटर कॉलेज

जीजी हिन्दू इंटर कॉलेज में दीपोत्सव पर बच्चों ने अपनी-अपनी कक्षाओं की सफाई की। रंगोली सजाई गई। प्रधानाचार्य डॉ कुलदीप बरनवाल ने दिवाली का महत्व बताया। डॉ प्रमोद कुमार शर्मा, राजीव शर्मा, वंश बहादुर आदि मौजूद रहे। संचालन डॉ सुरेंद्र कुमार वर्मा ने किया।



नेल्सन मंडेला अफ्रीकी विज्ञान और प्रौद्योगिर्क संस्थान (एनएम–एएसआईटी) में प्रशिक्षक व थनबंध के अनुसार समेकित वेतन के आध पर आवेदन ''ऑनलाइन'' आमंत्रित करता है इच्छुक उम्मीदवार विस्तृत अधिसूचना औ ऑनलाइन आवेदन के लिए www.cdac.ii अंतिम तिथि 15 नवंबर, 2019 है। (एचआरडी)



सम्मानित करते समर्पण पतियोगी संस्थान के पदाधिकारी।

समर्पण के मेधावी सम्मानित

मुरादाबाद **| वरिष्ट संवाददाता**

समर्पण प्रतियोगी संस्थान की ओर से शुक्रवार को नेशनल लेवल स्कॉलरशिप टेस्ट में सफलता पाने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया।

विगत 20 अक्टूबर 2019 को आयोजित हुए टेस्ट में विद्यार्थियों ने मेडिकल व इंजीनियरिंग क्षेत्र में अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित किया। समर्पण के मुरादाबाद व आसपास के क्षेत्र के तीन सौ

विद्यार्थियों ने प्रतिभाग किया था। जेईई के टॉप-6 व नीट के टॉप-6 विद्यार्थियों को नब्बे फीसदी तक की स्कॉलरशिप प्रदान की गई। मुख्य रूप से अनुकृति शर्मा, जहरा अलमास, मदीहा जावेद शामिल रहीं। संस्थान के निदेशक, ललित कुमार गोयल ने विद्यार्थियों की प्रतिभा की सराहना करते हुए मेहनत और लगन को सफलता की कुंजी बताया। सभी अध्ययनरत विद्यार्थियों को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं।

अब स्कूल में शिक्षा पा सकेगा किसरौल का कृष्णा

मुरादाबाद। धनतेरस का त्योहार किसरौल के कृष्णा के लिए तोहफा लेकर आया है। स्कुल में फीस के लिए मोहताज कृष्णा को शुक्रवार को शिक्षा पाने का मौका मिला है। मुरादाबाद की संस्था ने बच्चे को एक साल की स्कूली फीस अदा की है। लिहाजा कृष्णा को स्कूली शिक्षा से वंचित नहीं रहना होगा।

शहर के चौरासी घंटा की विधवा निशा वर्मा अपने पोते को पाल पोस रही है। इकलौते बेटे राजीव वर्मा की मृत्यु के बाद उसकी पुत्रवधू ने मासूम को छोड़ दिया। दस साल के बच्चे के किसरौल के एक स्कूल में कक्षा चार का छात्र है। बच्चे को शिक्षा दिलाने के लिए दादी ही जत्न कर रही है। पर बच्चे की फीस जमा न होने पर स्कूल ने नाम काटने की बात कही। दादी मां की व्यथा पर सामाजिक संगठन ने हमदर्दी दिखाई। कुछ महीने पहले बच्चे की शिक्षित करने को तरस रही दादी के लिए शुक्रवार का दिन उम्मीद लेकर आया।

एमआईटी में मनी ग्रीन दिवाली

मरादाबाद। एमआईटी में आर्किटेक्चर के विद्यार्थियों ने ग्रीन दिवाली मनाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। सजावट के लिए वेस्ट मैटेरियल का प्रयोग किया। सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। एमआईटी परिवार से सधीर गप्ता. वाईपी गप्ता. अनिल अग्रवाल. बरखा कटारिया, निदेशक डॉ रोहित गर्ग मौजूद रहे।



पोलियो वैन फैलाएगी जागरूकता

मुरादाबाद। पोलियो उन्मुलन को जागरूकता अभियान के तहत पोलियो रोटरी वैन का आरंभ किया गया। एडवोकेट, सुधीर गुप्ता ने सपत्नीक वैन का आरंभ किया। विश्व पोलियो दिवस पर रोटरी क्लब मुरादाबाद एवं एसएसजी फाउंडेशन के सहयोग से मुरादाबाद में पोलियो उन्मलन के पोलियो वैन भिमका निभाएगी। इसके माध्यम से जन-जागृति की जाएगी।



नवोदय विद्यालय समिति

Navodaya Vidyalaya Samiti

An Autonomous Organization Under Ministry of Human Resource Development, Department of School Education & Literacy, Government of India B-15, Institutional Area, Sector-62, Noida, Uttar Pradesh-201307



कक्षा—9 (2020—21) में रिक्त स्थानों पर प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित हैं

नवोदय विद्यालय समिति सत्र 2020–21 के लिए जवाहर नवोदय विद्यालयों में कक्षा–9 के लिये रिक्त स्थानों पर प्रवेश हेतु आवेदन आमंत्रित करती है। ऑनलाइन आवेदन जमा करना 25 अक्टूबर–2019 से प्रारंम होगा। आवेदन नविस की वेबसाइट : www.navodaya.gov.in (अथवा) nvsadmissionclassnine.in पर पहुँचकर निःशुल्क किया जा सकता है।

ऑनलाइन विंडो खुलने की तिथि 25.10.2019

- नवोदय की सामान्य विशेषताएँ ❖ प्रत्येक जनपद में सह-शिक्षा आवासीय विद्यालय
- 💠 छात्र एवं छात्राओं के लिए अलग–अलग छात्रावास नि:शल्क शिक्षा, भोजन एवं आवास
- प्रवजन योजना द्वारा वृहत सांस्कृतिक आदान—प्रदान
- खेलकूद, एनसीसी, एनएसएस एवं स्काउट और

- गुणवत्तायुक्त शिक्षा पर विशेष बल के परिणामस्वरूप सफलता 11733 में से 4451 विद्यार्थी JEE (Mains)-2019 में सफल हुए
- 4451 में से 966 विद्यार्थी JEE (Advanced)-2019 में सफल हुए
- 16156 में से 12654 विद्यार्थी NEET-2019 में सफल हुए बोर्ड परीक्षा में विद्यालय औसत

Half Year Ended

- कक्षा X: 77.75%
- XII: 74.91%

अभ्यर्थी उसी जिले में, जहाँ ज.न.वि. कार्यरत है और जहाँ वह प्रवेश लेना चाहता है, के किसी सरकारी ⁄ सरकारी मान्यता प्राप्त विद्यालय में सत्र 2019–20 में कक्षा–8 में अध्ययनरत है, प्रवेश के लिए अई है। प्रवेश चाहने वाले अभ्यर्थी का जन्म 01.05.2004 और 30.04.2008 (दोनों तिथियां सिम्मलित) के बीच होना चाहिए। यह अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग सहित सभी वर्ग के अभ्यर्थियों पर लागू है।

विस्तृत जानकारी, परीक्षा के स्वरूप सहित एवं जवाहर नवोदय विद्यालयों में रिक्त स्थानों की स्थिति के लिए न.वि.स. की वेंबसाइटः www.navodaya.gov.in अथवा nvsadmissionclassnine.in पर देख सकते हैं। संबंधित जिले के जवाहर नवोदय विद्यालय के प्राचार्य से भी संपर्क किया जा सकता है।

नवोदय विद्यालय समिति द्वारा जारी

(₹ in Lakhs)

Year Ended

दरगाह पर दिनभर उमडे अकीदतमंद की चादरपोशी

मुरादाबाद। हजरत शाह बुलाकी साहब का 302 वां सालाना उर्स मुबारक पूरी रिवायती शान ओ शौकत के साथ आरंभ हुआ। इसमें सुबह से ही अकीदतमंदों की भीड़ उमड़ी रही। लोगों ने चादर पोशी कर मन्नतें मांगीं। इस दौरान लंगर

उर्स मुबारक में इशा के नमाज के बाद नातिया मुशायरा हुआ। इसमें नातखान ने शाह बुलाकी की शान में कलाम पढ़े। तकरीर भी की गई। लोगों ने शाह बलाकी की जिदंगी पर रोशन डाली। उन्होंने इंसानियत एवं कौमी एकता की मिसाल बताया। मृतवल्ली इश्त्याक हसैन ने बताया कि कल 26 अक्टूबर को महफिले कव्वाली होगी। 27 अक्टूबर को पुलिस लाइन से लाकर सरकारी चादर चढ़ाई जाएगी।



पारले इंडस्ट्रीज रुद्रपुर का भ्रमण करने पहंचे टिमिट के छात्र।

प्रबंधन की बारीकियां समझीं

मुरादाबाद। टीएमयू संबद्ध टिमिट के विद्यार्थियों ने एजकेशनल दर के तहत पारले इंडस्ट्रीज रुद्रपुर का भ्रमण किया। उत्पादन की प्रक्रिया देखी। प्रबंधन की बारीकियां समझीं। चुनौतियों पर मंथन

किया। संस्थान के निदेशक प्रो विपिन जैन ने कहा कि शैक्षिक भ्रमण विद्यार्थियों में व्यवहारिक ज्ञान की बढ़ोत्तरी करता है। निर्देशन पारुल, दीप्ती व राज वर्मा ने



.com

शहर की कई संस्थाएं शिक्षा के क्षेत्र में निमा रहीं हैं महत्वपूर्ण भूमिका शिक्षा से लोगों के जीवन में फैला रहे उजियारा

मुरादाबाद विरिष्ठ संवाददाता

शिक्षा की राह में उजियारा फैलाकर सेवा संग दिवाली मनाई जाएगी। शहरी संस्थाएं जहां इस अनुटे प्रकल्प में अपनी भूमिका निभा रही हैं, तो वहीं व्यक्तिगत तौर पर भी शिक्षा की सेवा का दायित्व उठाने वाले इस दिशा में सतत कार्य कर रहे हैं। सबका यही मानना है कि हर बच्चा शिक्षित होगा, तो हर दिन दिवाली होगी। शिक्षा के प्रकाश से सारा समाज सराबोर होगा।

शिक्षा की राह में उजियारा फैलाकर इस प्रकाश को निरंतर जारी रखने में वरिष्ठ समाजसेवी रोहिताश सपड़ा, चित्रलेखा अग्रवाल, अनीता गुप्ता भूमिका निभा रही हैं। लाला बाब चेरिटेबल टस्ट के माध्यम से जहां हर साल प्रतिभाशाली बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाती है, तो वहीं अनीता गुप्ता सांध्यकालीन निशलक विद्यालयों का संचालन अरसे से इस सेवा को अंजाम दे रही हैं। राधा-गोविंद सेवा ट्रस्ट के माध्यम यही सेवाकार्य रोहिताश सपड़ा कर रहे हैं।

इनके अलावा शहर की संस्थाएं भी जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा को गोद लेकर



शिक्षा का प्रकाश अमर होता है। यह कभी कमजोर नहीं पडता। दिवाली भी प्रकाश का पर्व है। हम शिक्षा के जरिए इसी प्रकाश का प्रसार करने का प्रयास कर रहे हैं। रोहिताश सपड़ा समाजसेवी



शिक्षा के संकल्प संग हमारी सेवा की यह दिवाली उन बच्चों को समर्पित है जिन्होंने विषम परिस्थितियों में शिक्षा पाकर अपनी प्रतिभा को साबित किया है। **अनीता गुप्ता**, समाजसेविका



फैलाने में हमारा सेवाकार्य निरंतर जारी रहेगा। चित्रलेखा अग्रवाल.

हमारी दिवाली होगी। शिक्षा

के इस अनवरत प्रकाश को

शिक्षित होकर स्वावलंबी बने बच्चे

मुरादाबाद। युवाओं की सामाजिक संस्था उम्मीद के प्रयास को हर किसी ने सराहा। संस्था के माध्यम से निशुल्क शिक्षा की राह पाने वाले जरूरतमंद बच्चों ने वेस्ट मैटेरियल से दिवाली की साज-सज्जा का सामान तैयार किया। संस्था की ओर से बच्चों के हाथों से बने सामान की प्रदर्शनी लगाई गई। हर किसी ने बच्चों की प्रतिभा को सराहा। इस सामान को लेकर घर की सज्जा करने की बात कही। शिल्पी सैनी, आंचल सैनी, सृष्टि अधिकारी, सूर्याश सक्सेना, नवनीत शर्मा, अश्विनी सैनी का सहयोग रहा।

उन्होंने शिक्षा की राह देने में लगी हैं। जरूरतमंद बच्चों को यहां कक्षा पांच तक की शिक्षा प्रदान की जाती है। इसके बाद उन्हें अन्य विद्यालयों में प्रवेश दिलाया जाता है।

Place

Date

Noida

25 October, 2019



Jubilant Life Sciences Limited

Regd. Off.: Bhartiagram, Gajraula, District Amroha - 244 223 (U.P.) | CIN: L24116UP1978PLC004624 Website: www.jubl.com | Email: investors@jubl.com | Tel: +91-5924-267200

Extract of Consolidated Unaudited Results for the Quarter and Half year ended 30 September 2019

30 September 30 June 30 September 30 September 30 September 31 March **Particulars** (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Audited) 2019 2019 2019 2018 2019 2018 444779 Total revenue from operations 226593 218186 226949 434814 911082 Net Profit before tax, exceptional and 29223 26903 31026 56126 61851 118404 extraordinary items 29223 26903 30181 56126 58818 90381 Net Profit before tax (after exceptional and extraordinary items) 24939 18498 20977 43437 41014 57701 Net Profit after tax, exceptional and extraordinary items 35071 Total comprehensive income after tax (comprising 27320 23203 50523 56473 56323 profit for the period after tax and other comprehensive Earnings per share of ₹ 1 each (Not annualized) 15.66 11.61 13.50 27.27 26.50 36.86 Basic (₹) 36.86 Diluted (₹) 15.66 11.61 13.50 27.27 26.50 1593 Equity share capital 1593 1593 1558 1593 1558 Reserves (excluding revaluation reserve) 521437 458349 479299 480902 Net Worth 523030 454477 420300 Paid-up debt capital 428900 301970 Capital Redemption Reserve 3984 3984 3984 13008 Debenture Redemption Reserve 13008 7492 Debt Equity Ratio 0.65 0.76 0.73 6.41 6.65 8.07 Debt Service Coverage Ratio 6.41 6.65 Interest Service Coverage Ratio 8.07

The Company has opted to publish consolidated results for the year ending 31 March 2020. The standalone unaudited results are available under Investors section of our website at www.jubl.com and under Financial Results at Corporates section of www.nseindia.com and www.bseindia.com. Key standalone financial information of the Company is as under: (₹ in Lakhs)

Particulars	Quarter Ended			Half Year Ended		Year Ended
	30 September	30 June	30 September	30 September	30 September	31 March
	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)
	2019	2019	2018	2019	2018	2019
Total revenue from operations	75754	78982	88727	154736	171391	343861
Profit before tax	10620	4732	9121	15352	12466	18343
Net profit after tax	14307	3226	7961	17533	10349	14763

- Items referred in sub clauses (a), (b), (d) and (e) of the regulation 52(4) of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015, have been disclosed in detailed format of the consolidated unaudited results for the guarter and half year ended 30 September 2019 filed with BSE Limited and The National Stock Exchange of India Limited and can be accessed under Financial Results at Corporates section of www.nseindia.com and www.bseindia.com
 - The above consolidated unaudited results were, subjected to limited review by the Statutory Auditors of the Company, reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on 25 October 2019 The above is an extract of the detailed format of the consolidated unaudited results for the quarter and half year ended 30 September 2019 filed

with the Stock Exchanges under Regulation 33 and 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The

full format for the consolidated unaudited results for the quarter and half year ended 30 September 2019 is available under Investors section of

our website at www.jubl.com and under Financial Results at Corporates section of www.nseindia.com and www.bseindia.com For Jubilant Life Sciences Limited Hari S. Bhartia

Co-Chairman & Managing Director